

JAY BHARAT MARUTI LIMITED

Corporate Office : ° Plot No. 9, Institutional Area,
Sector 44, Gurgaon-122 003 (Hr.)
T : +91 124 4674500, 4674550
F : +91 124 4674599
W : www.jbmgroup.com

Ref. No.: JBML/SE/21-22

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street,

Mumbai-400001

Scrip Code: 520066

Dated: 30-04-2021

The National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, 5th Floor,

Plot No. C/1, G Block,

Bandra Kurla Complex, Bandra (E)

Mumbai- 400051

NSE SYMBOL: JAYBARMARU

Sub: Submission of Newspapers Advertisements under Regulation 47 read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation 2015

Dear Sir,

Pursuant to the provision of Regulation 47 read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015, we are enclosing herewith, copies of the newspaper advertisements published in Business Standard (Hindi) in Delhi edition and Business Standard (English) in Delhi edition dated 30th April, 2021, for the publication of Audited Financial Results of the Company (Standalone and Consolidated) for the fourth quarter and Year ended 31 March, 2021 approved at the meeting of Board of Directors held on 29th April, 2021.

You are requested to please take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully

For Jay Bharat Maruti Limited

RAVI
ARORA
Digitally signed
by RAVI ARORA
Date: 2021.04.30
15:30:33 +05'30'

Ravi Arora

Company Secretary

Works :

Plant I : Plot No. 5, MSIL, Joint Venture Complex, Gurgaon-122 015 (Haryana) T: +91 124 4887200, F: +91 124 4887300 Our milestones are touchstones
Plant II : Village & Post - Mohammadpur Narsinghpur, Sector 36, Gurgaon - 122 001 (Haryana) T: +91 124 4935300, F: +91 124 4935332
Plant III : Plot No. 15-16 & 21-22, Sector 3A, Maruti Supplier Park, IMT Manesar, Gurgaon -122 051 (Haryana) T: +91 9999190423, 9899079952
Plant IV : Plot No. 322, Sector - 3, Phase-II, GWC, Bawal - 123 501 (Haryana) T +91 8221004201, 8221004203
Regd. Office : 601, Hemkunt Chambers, 89, Nehra Place, New Delhi - 110 019 T : +91 11 26427104-06. F : +91 11 26427100
CIN : L29130DL1987PLC027342

ARYAVART BANK
(A Joint Undertaking of Govt. of India, U.P. Govt. & Bank of India)

Regional Office, Agra 1, Raghunath Nagar,
Suresh Plaza, M.G. Road, Agra-UP

NOTICE
As per Order dt 24.04.2021 in PIL
No. 564/2020 passed by Hon'ble
High Court of Allahabad, all the
E- Auction/ Sale information
published by the Authorised officer
dated 27.03.2021 has been
deferred till further notice.
Authorised Officer

Western Coalfields Limited
(A Subsidiary of Coal India Ltd)

TENDER NOTICE
T.No.: na3250-min-etender004-2021-22. Description: Loading and transportation of coal from coal stock yard of Singhori OCM to semi mobile crusher by hiring of tippers, loading by hired payloaders and unloading at hopper of semi mobile crusher via weighbridge (for weightment) at Singhori OCM of Nagpur area. Approx Value: Rs 3.51,06,750/- (including GST). Last date & time of submission: 19.05.2021 upto 5.00 PM. Date and time of opening: 21.05.2021 at 11.00 AM. Tendering Authority: General Manager (Operations), WCL, Nagpur Area, PO- Jarpalka, Nagpur - 440014

For further details log on to our website <https://westerncoal.in> or <https://eprocure.gov.in> or <https://coalindiatender.nic.in> "Give a missed call on toll free number 1800203004 to get our app"

INDAG RUBBER LIMITED
CIN: L74899DL1978PLC009038
Regd. Office: Khemka House, 11 Community Centre, Saket, New Delhi - 110017
Email: info@indagrubber.com; Website: www.indagrubber.com; Phone: 011-26963172 - 73

NOTICE
In pursuance of the provisions of Regulation 29 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company is re-scheduled to be held on Saturday, May 08, 2021 to consider, inter-alia, the Audited financial results for the quarter and year ended March 31, 2021 and to recommend the final dividend for the financial year 2020-21.

Further, in pursuance of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the trading window was closed on April 01, 2021 and would remain closed till May 10, 2021 (both days inclusive).

By order of the Board
For Indag Rubber Limited
Sd/-
Date: April 29, 2021
Place: New Delhi
Company Secretary

DEMAND NOTICE
Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act) read with Rule 3(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules), in exercise of powers conferred under Section 13(2) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorised Officer of IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL) (Formerly known as India India Home Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s) to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of the Borrower(s), amount due as on date of Demand Notice and the amount offered towards repayment of loan amount are as under:-

Name of the Borrower(s) / Guarantor (s)	Demand Notice Date & Amount	Description of secured asset (immovable property)
Mr. Dashrath Singh Rathore, Mrs. Nandini Kanwar, Rajputi Pradhan, Mr. Yograj Singh Rathore, Mrs. Nirmala (Prospect No. 842868)	19-April-2021 Rs. 18,90,345/- (Rupees Eighteen Lakh Ninety Thousand Three Hundred Forty Five Only)	All that piece and parcel of the property being P. No. 99, Gangotri Nagar, Durgapura, Jaipur, Pincode:-302018, Rajasthan, India

If the said Borrowers fail to make payment to IIFL HFL as aforesaid, IIFL HFL may proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences of the Borrowers.

For further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: IIFL HFL Ambition Tower, Plot No. D-46-B, Offices No. 307 To 312, Malan Ka Chauraha, Agrasen Circle, Subhash Marg, C-Scheme, Jaipur-302001 or Corporate Office: IIFL Tower, Plot No. 98, Udyog Vihar, Ph-VI Gurgaon, Haryana.

Place: Jaipur Date: 30.04.2021 Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd

Kotak Mahindra Bank Limited
2nd Floor, North West Avenue Road, Sector-4 Club Road, Punjabi Bagh, New Delhi-110026

PUBLIC NOTICE
It is hereby informed that Kotak Mahindra Bank Limited through its authorised officer has instituted an Application under Section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 against M/s. Jotindra Steel and Tubes Limited [CIN-L27104HR1970PLC005240], due to its failure to repay the Financial Debt owed to Kotak Mahindra Bank to the tune of Rs. 14,48,48,132.15/-.

The said Application bearing number CP(IB) No.12/Chd/Hry/2021 came up for hearing before the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench on 19th March, 2021, when the Hon'ble NCLT issued the following interim order against the said Jotindra Steel and Tubes Limited (Respondent/ Corporate Debtor):-

"List the matter on 07.07.2021. In the circumstances and in view of the prima-facie case made out, the Respondent-Corporate Debtor is directed not to alienate or create any charge or encumbrance on the immovable assets of the corporate debtor and not to utilize the funds of the corporate debtor, except in the usual course of business without prior approval of this Adjudicating Authority".

In view of the order passed by the Hon'ble NCLT above, the public in general is hereby cautioned that any dealing with the assets of M/s. Jotindra Steel and Tubes Limited in contravention of the above order would be at their own risk.

Authorized Officer
Kotak Mahindra Bank Ltd.
Place: Delhi

Kotak Mahindra Bank Limited
Registered Office at 27BKC, C-27, G Block, Bandra Kuria Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051
Branch Office: 7th Floor, Ambadeep Building, 14 K.G. Marg, New Delhi-11001

DEMAND NOTICE
NOTICE UNDER SECTION 13 (2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002.

The undersigned, being the Authorized Officer of KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED (earlier known as ING Vysya Bank Ltd., which has been amalgamated with Kotak Mahindra Bank Limited, pursuant to the Order issued by Reserve Bank of India under Sub-section 4 of Section 44A of Banking Regulations Act, 1949 sanctioning the scheme of amalgamation of ING Vysya Bank Limited with Kotak Mahindra Bank Limited effective from April 1, 2015 hereinafter referred to as "Bank"), a banking company within the meaning of the Banking Regulation Act, 1949 having its Registered Office at 27BKC, C-27, G Block, Bandra Kuria Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051, appointed under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, hereby issues the following notice:-

The borrowers/Co-Borrowers as well as the public in general are hereby informed that the undersigned being the Authorized Officer of KMBL, the secured creditor has initiated action against the following borrower/Co-Borrowers under the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the SARFAESI Act), if the following borrowers fail to repay the outstanding dues indicated against their names within 60 (Sixty) days of this notice, the undersigned will exercise any one or more of the power conferred on the Secured Creditor under sub section (2) of Section 13 of the SARFAESI Act. Including power to take possession of the properties and sell the same. The public in general is advised not to deal with property described here below.

Name of the Borrowers / Proprietor Guarantor & Mortgagor	Detail of Secured Asset (Immovable Property)
1. Ms. Nisha Anand (Borrower/Mortgagor) 2. Mr. Mohit Anand (Co-Borrower) Both are residing at: H-31, B Ground Floor Rear Portion Kalkaji, New Delhi-110019 Also at: Plot No. 488-489, Block C, First Floor, Sushant East C-489, South: C-485, West: C-487	All that part and parcel of the property consisting of: *Plot Bearing No. C-488, Block No. C, Measuring 250 Sq. Mtrs., Sushant Lok-I, Gurgaon, Haryana-122009 *Bounded as below:- North: Road East: C-489, South: C-485, West: C-487

Loan Account No., Demand Notice Date, and Amount

ILAP2820 & IHL5755 (Rupees Eighty Four Lacs Fifty Two Thousand Four Hundred Forty Seven and Eight Eight Paise) as on 20th April, 2021

NPA DATE: 01.02.2021

Date: 30/04/2021, Place: Delhi FOR KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED, AUTHORISED OFFICER

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
(ORIGINAL JURISDICTION)
COMPANY PETITION NO. CP (CAA) 31 (PB) OF 2021
CONNECTED WITH
COMPANY APPLICATION NO. CA (CAA) 106 (PB) OF 2020
IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2013 (18 OF 2013)
SECTIONS 230 & 232
AND
IN THE MATTER OF SCHEME OF AMALGAMATION
AND
IN THE MATTER OF
STYLE REALTORS PVT LTD PETITIONER NO. 1/TRANSFEROR COMPANY
AND
HIGH RESPONSIBLE REALTORS PVT LTD PETITIONER NO. 2/TRANSFeree COMPANY
(Both the Companies are incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and have their registered office at C-4, First Floor, Malviya Nagar, New Delhi-110 017)

Notice of Hearing of Petition
A Petition under sections 230 & 232 of the Companies Act, 2013, and other applicable provisions, if any, for obtaining sanction to the Scheme of Amalgamation of Style Realtors Pvt Ltd with High Responsible Realtors Pvt Ltd was presented by the Petitioner above named on 09th February, 2021 and the said Petition is fixed for hearing on 13th May, 2021 at 10:30 A.M. before the Hon'ble National Company Law Tribunal, Principal Bench (Court-1), Block No. 3, Ground, 6th, 7th & 8th Floor, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003.

Any person desirous of supporting or opposing the said Petition should send to the Bench and to the Petitioners' Advocate, notice of his intention, signed by him or his advocate, with his name and address, so as to reach the Bench and the Petitioners' Advocate not later than 2 days before the date fixed for hearing of the Petition. Where he seeks to oppose the Petition, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the Petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

Sd/-
Rajeev K Goel, Advocate
For Rajeev Goel & Associates
Counsel for the Petitioners

Date: 28.04.2021
Place: New Delhi
Delhi Meerut Expressway/NH-9, Delhi-110 091
Mobile: 93124 09354, e-mail: rajeev391@gmail.com, Website: www.rgalegal.in

Mukhyamantri Laghu Evam Kutir Udyam Vikas Board
(Government of Jharkhand Undertaking)
4th Floor, Udyog Bhawan, Ratu Road, Ranchi 834001

Corrigendum

Ref. No:318 Date:29.04.2021

In view of the extraordinary rise in COVID-19 pandemic, the dates of bid submission and bid opening for E - Tender Advt. PR No: 244879 dated 01.04.2021, for the supply, installation, testing and commissioning of Brass and Bronze Utensils manufacturing machinery and equipment for M/s. Kariyatpur Brass Manufacturing, Ichak, Hazaribagh, Jharkhand are being extended as follows:

- Last date and time of bid submission - 18-May-2021, 03:00 PM
- Bid opening date and time - 20-May-2021, 11:30 AM
- Demand Draft must be submitted in original before opening of the bid, i.e., on or before 20-May-2021
- Rest of the terms and conditions of the E-tender will remain unchanged.

Sd/-
PR 246113 Mukhyamantri Laghu And Kutir Udyam Vikas Board(21-22)#D Chief Executive Officer

Contact Detail : Mukhyamantri Laghu evam Kutir Udyam Vikas Board
4th Floor, Udyog Bhawan, Ratu Road, Ranchi - 834001 (Jharkhand)
Email- contact.cmlaghukutir@gmail.com, Phone: 9102368888, 9262219999

Indian Bank
Jaipur Branch, Dharma Heights 10, Motilal Atal Marg, Opposite Gampati Plaza, Jaipur, Rajasthan - 302001, Phone no.: 0141-2366603, E-Mail: jaipur@indianbank.co.in

DEMAND NOTICE
NOTICE UNDER SEC.13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002.

Notice for the period of 60 days was given under section 13(2) of above act to the following borrowers to deposit loan amount and future interest due to NPA of their account by the authorized officer of the bank. According to the notice if the loan amount not deposited within 60 days, the said amount was to be recovered under provision of section 13(4) of the said act. The Branch has not received the acknowledgement of said notice/returned undelivered which was sent to you under said act. Therefore this is to inform through notice that deposit the loan amount with future interest and expenses, hence further steps will be taken by the bank under provisions of section 13 and 14 of the said Act.

Date of Notice U/s 13(2)	Name, Address of the Borrower/Guarantor NPA Date, A/c No. & Branch Name	Outstanding Amount	Description of the Mortgaged Assets
13.04.2021	1. M/s Shree Shakambhari Jodhpuri Saha and Serwani House (Proprietor Vikram Singh Nirwan), Add:- Shop No. 70, Jaswant Nagar, Khatipura Jaipur, Rajasthan. Pin-302012 2. Mr. Vikram Singh Nirwan S/o Shyam Singh Nirwan (Borrower) Add:- Plot No. A-139, Kalyan Kunj Jaipur, Rajasthan, pin-302012 NPA Date: 18.01.2021 & A/c No. 6667535887 (Cash Credit) Branch: M. I. Road, Jaipur	Rs. 7,80,748/- (Rupees Seven Lac Eighty Thousand Seven Hundred Forty Eight only) as on 13.04.2021 [O/s Rs. 751527.00 MOI Rs. 29221.00]	Hypothecation of Live Stocks/ Movable Equipments / Stocks situated at Shop No. 70, Jaswant Nagar, Khatipura, Jaipur, Rajasthan. Pin-302012

Yours Faithfully, (Authorised Officer)
INDIAN BANK, M. I. Road, Jaipur Branch
Date: 30.04.2021, Place: Jaipur

ANAND RATHI
Anand Rathi Global Finance Ltd Express Zone, A Wing, 10th Floor, Western Express Highway, Diagonally Opposite Oberoi Mall, Goregaon (E), Mumbai 400063.

DEMAND NOTICE
Whereas the borrowers/co-borrowers hereunder have availed the financial assistance from Anand Rathi Global Finance Ltd. We state that despite having availed the financial assistance, the borrowers/co-borrowers have committed various defaults in repayment of interest and principal amounts as per due dates. The account has been classified as Non-Performing Asset on the respective dates mentioned hereunder in accordance with the directives/guidelines issued by Reserve Bank of India. The Authorized Officer of Anand Rathi Global Finance Ltd. under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 & in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with Rule 3 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices on respective dates mentioned herein below under Section 13(2) of SARFAESI Act, 2002 calling upon the following borrowers/mortgagors to repay the amount mentioned in the notices together with further interest at the contractual rate on the amount mentioned in the notices and incidental expenses, cost, charges etc. until the date of payment within 60 days from the date of the notices.

NAME OF THE BORROWER / ADDRESS	CO-BORROWER/S NAME	NPA DATE	OUTSTANDING AMT (Rs.)	PROPERTY ADDRESS OF SECURED ASSETS
M/s Shree Ganesh Trading Company (Borrower) Ground Floor, G-45, Lawrence Road Industrial Area Keshav Puram New Delhi: 110035	1. Mr. Gambhir Chitranjan Singh 2. Mrs. Renuka Thakur (Co-borrower/s) Bahadurgarh, Haryana-124507 Also at: Lower Ground Floor in Property No: 58 Block: F, Rajouri Garden- J-6, West Delhi Delhi: 110027 Also at Dharam Vihar, House No: 85/9 Bahadurgarh, Bahadurgarh Jhajjar, Haryana: 124507	31/03/2021	3,40,20,171 (As on 29.04.2021)	Property no. WZ-912 admeasuring area 200 sq. yards out of Kharsa no. 1791/2, situated in Old Lal Dora of 1908-1909 of Village Naraina, New Delhi
		DATE OF DEMAND NOTICE	LOAN AMOUNT (Rs.)	
		29/04/2021	Rs. 2,77,00,000/-	

In the circumstances as aforesaid, the notice is hereby given to the above borrowers and co-borrowers to pay the outstanding dues as mentioned above along with future interest and applicable charges within 60 days from the date of the publication of this notice failing which further steps will be taken after the expiry of 60 days of the date of this notice against the secured assets including taking possession of the secured assets of the borrowers and the mortgagors under Section 13(4) of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and the applicable rules thereunder. In case you are desirous of making any representation in response to this notice, please mark the same to our Authorised Officer Mr. Mohit Chopra, Anand Rathi Global Finance Ltd., A-254, Defence Colony, New Delhi - 110024 / Mr. Rohit Salwan, Anand Rathi Global Finance Ltd. at 8th floor, "A" Wing, Express Zone Building, Western Express Highway Road, Goregaon (East), Mumbai: 400 063, only to enable us to respond in time. Please note that we shall not be responsible for not responding to any of your representations made in response to this notice if the same is addressed to any other person or place.

Please note that under Section 13 (13) of the said Act, no Borrower shall, transfer by way of sale, lease or otherwise any of his secured assets referred to in the notice, without prior written consent of the secured creditor.

Sd/-
Date: 30.04.2021 Place: Delhi
AUTHORISED OFFICER (ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED)

JBM GROUP
Our milestones are touchstones

JAY BHARAT MARUTI LIMITED
Regd. Office: 601, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi-110019. Ph.: 011-26427104;
Fax: 011-26427100; Website: www.jbmgroup.com; CIN: L29130DL1987PLC027342

STATEMENT OF AUDITED RESULTS FOR THE QUARTER/ TWELVE MONTHS ENDED 31st MAR 2021

Particulars	(Rs. in Lacs)					
	STANDALONE		CONSOLIDATED			
	Quarter Ended 31/03/2021	Twelve Months Ended 31/03/2021	Quarter Ended 31/03/2020	Quarter Ended 31/03/2021	Twelve Months Ended 31/03/2021	Quarter Ended 31/03/2020
Total Income from operations	54,156.02	150,360.23	40,165.28	54,156.02	150,360.23	40,165.28
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3,132.98	4,154.30	1,441.74	3,165.68	4,180.99	1,404.74
Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,132.98	4,154.30	1,441.74	3,165.68	4,180.99	1,404.74
Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,995.50	2,606.28	1,007.83	2,017.12	2,623.33	981.85
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax))	1,924.37	2,929.87	644.88	1,945.48	2,946.40	618.90
Equity share capital	1,082.50	1,082.50	1,082.50	1,082.50	1,082.50	1,082.50
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	43,884.59	43,884.59	41,225.34	43,909.76	43,909.76	41,233.98
Earning per Share (of Rs. 5/- each) (not annualised) (For continuing and discontinued operations)-						
a) Basic	9.22	12.04	4.66	9.32	12.12	4.54
b) Diluted	9.22	12.04	4.66	9.32	12.12	4.54

Notes:

- The board at its meeting held on April 29th, 2021 has recommended a dividend @ 25% i.e. Rs. 1.25 per share (on fully paid up equity share of Rs. 5/- each) for the year ended 31st March, 2021
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.nseindia.com and www.bseindia.com, and on the Company's website www.jbmgroup.com

By Order of the Board
For JAY BHARAT MARUTI LIMITED
Sd/-
S. K. ARYA
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Place :- Gurugram
Date :- 29 April, 2021

Union Bank
Regional Office -Jodhpur, 3rd Floor, Cyber -7, RILCO Cyber Park, RILCO Heavy Industrial Area, Near Saras Dairy, Jodhpur-342001

Sale Notice for Sale of immovable properties

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged & charged to the Secured Creditor, physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of Union Bank of India (secured creditor), will be sold on "As is where is" and "Whatever there is" on the date mentioned below, for recovery of dues as mentioned hereunder to Union Bank of India from the below mentioned Borrower(s)& Guarantor(s). The Reserve Price and the Earnest Money Deposit are also mentioned hereunder:

Branch Name, Address & Contact No., Agrasen Circle Modern Market Bikaner 334001 Raj Branch Manager Dipanshu Mishra Mo. 9793117983

Name of the Borrower & Guarantor/s- 1. MS Do Bhai Di Hatti Proprietor Mr. Nirmal Kumar Kamra Mrs Mamta Kamra W/o Nirmal Kumar Kamra (Guarantor) Mr. Bhupendra kumar Midha (Guarantor)
2. M/s Do Bhai Textile Proprietor Mr. Nirmal Kumar Kamra Mrs. Mamta kamra W/o Nirmal kumar kamra (Guarantor) Bhupendra Kumar Midha s/o Mohan Lal Midha(Guarantor)
3. Mrs. Mamta Kamra W/o Nirmal Kumar kamra (Borrower) Nirmal kumar kamra s/o Chandra Bhan Kamra (Co borrower) Bhupendra Kumar Midha s/o Mohan Lal (Co borrower)

1. M/s Do Bhai Hatti As per demand notice dated 15/10/2019 Rs.= 4,74,09,515.80/-
2. M/s Do Bhai Textile As per demand notice dated 08/01/2020, Rs.= 1,53,88,183.56/-
3. Mrs. Mamta Kamra As per demand notice dated 08/01/2020
Rs. 4,67,80,270.22/- Total (4,74,09,515.80+1,53,88,183.56+4,67,80,270.22)=10,95,77,969.58/- (Rupees ten crore ninety five lakh seventy seven thousand nine hundred sixty nine and fifty Eight paise only with further interest and charges thereon)

**Property No. 1 Residential property situated at plot no 62 A Karani Nagar Pawanpuri Bikaner owned by Mamta Kamra admeasuring 3080 sq ft bounded as follow On the North: 61 A, On the South: 63 A, On the East: 67A, On the West: Road
Date & Time of E-Auction: 18.05.2021 from 11 am Reserve Price 22000000/- (Two crore twenty lacs only)/Earnest money to be deposited 2200000/- (Twenty two lacs only)
For detailed terms and condition of the sale, please refer to the link provided in www.unionbankofindia.co.in OR <https://www.ibapi.in>**

**Property No. 2 Industrial plot measuring 27250 sq ft situated at Kharsa no 174 village Jaimalsar Bikaner owned by M/S Do Bhai industries through proprietor Mamta Kamra bounded as below :- On the North: Road, On the South: Kharsa no. 174, On the East: Kharsa no. 174, On the West Kharsa no. 174
Date & Time of E-Auction: 18/05/2021 from 11 am Reserve Price 4,42,000/- (Four lacs forty two thousand) only Earnest money to be deposited 44200/- Forty four thousand two hundred only
For detailed terms and condition of the sale, please refer to the link provided in www.unionbankofindia.co.in OR <https://www.ibapi.in>**

**Property No. 3 Shop no K 2 measuring 262.27 sq ft basement floor Khajanchi Market Alakh Sagar road Bikaner owned by Nirmal Kumar Kamra bounded as below On the North: street, On the South: street, On the East: shop no. k1, On the West shop no. K2
Date & Time of E-Auction: 18/05/2021 from 11 am Reserve Price 3400000/- (Thirty four lacs only) Earnest money to be deposited 340000/- (Three lacs forty thousand only)
For detailed terms and condition of the sale, please refer to the link provided in www.unionbankofindia.co.in OR <https://www.ibapi.in>**

**Property No. 4 House at Plot No. 118 Measuring 1800 sq feet block-A Sagar Setu udasar Bikaner owned by Mr. Nirmal kumar kamra bounded as below On the North : Plot no 117, On the South: Plot no 119, On the East : Road 40 ft wide, On the West: Plot no. 127
Date & Time of E-Auction: 18/05/2021 from 11 am Reserve Price 3700000/- (Thirty seven lacs only) Earnest money to be deposited 370000/- (Three lacs seventy thousand only)
For detailed terms and condition of the sale, please refer to the link provided in www.unionbankofindia.co.in OR <https://www.ibapi.in>**

Property No. 5 House at plot no A 84 Near Champaram Jewellers Karanigar Pawanpuri owned by Nirmal Kumar Kamra and Mamta Kamra admeasuring 3080 sq ft bounded as below On the North: Road, On the South: Plot no 99,100,101, On the East: Plot no. A-85, On the West: Plot A-83 Date & Time of E-Auction: 18/05/2021 from 11 am Reserve Price 41500000/- (Four crore fifteen lacs only) Earnest money to be deposited 4150000/- (Forty one lacs fifty thousand only) For detailed terms and condition of the sale, please refer to the link provided in www.unionbankofindia.co.in OR <https://www.ibapi.in>

For Registration and Login and Bidding Rules visit <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp>
Date: 27.04.2021 Place: Bikaner
Authorized Officer

HAVE A GOOD BUSINESS MORNING!

Business Standard newspaper delivering safely to homes and offices

For details, SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in

Business Standard
Insight Out

[bsindia](https://www.bsindia.com) [bsindia](https://www.bsindia.com) [business-standard.com](https://www.business-standard.com)

